

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 141]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 4 मई 2019 — वैशाख 14, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 8 मार्च 2019

आदेश

क्रमांक 2623/745/21-ब/छ.ग./2019. — राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री हामीद हुसैन खान, अधिवक्ता को श्रीमती विश्वदिनी पाण्डेय, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, रायपुर के स्थान पर शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, रायपुर तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक, रायपुर के पद पर भी कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परीवीक्षा अवधि या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैनुअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29 - 2014 - न्याय प्रशासन, 114 - कानूनी सलाहकार और परिषद, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008 - शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अंतर्गत प्रभारित किया जावेगा .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एन. त्रिपाठी, उप- सचिव.